



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 फाल्गुन 1936 (श०)
(सं० पटना 351) पटना, मंगलवार, 10 मार्च 2015

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद
विद्यापति मार्ग, पटना-800001

अधिसूचना
23 जनवरी 2015

सं० 1414—श्री ठाकुरजी रामजानकी मंदिर, महदह, बक्सर एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है।
न्यास की सुव्यवस्था, सुरक्षा एवं उसके सम्यक विकास हेतु पर्षदीय पत्रांक-3677, दिनांक 11/10/1982 द्वारा एक अधिसूचना के माध्यम से ग्यारह सदस्यीय न्यास समिति का गठन अगले आदेश तक किया गया था। न्यास के मंत्री/सचिव वैकटेश्वर सिंह ने अपने पत्र दिनांक 28/07/2014 द्वारा सूचित किया कि वे शारीरिक अस्वस्थता के कारण त्याग पत्र दे रहे हैं और समिति की साधारण बैठक सं० 44 के प्रस्ताव सं० 4, दिनांक 28/07/14 के अनुसार सूचित किया कि कुछ सदस्यों की मृत्यु हो गयी है एवं उनके स्थान पर नये सदस्यों को नियुक्त किया गया तथा उनके अनुमोदन की मांग की गयी। पर्षदीय पत्रांक-713, दिनांक 26/08/14 द्वारा न्यास समिति के शेष सदस्यों के विचार/मंतव्य, मृत सदस्यों के मृत्यु प्रमाण-पत्र तथा ऐसे सदस्य जो शारीरिक अस्वस्थता के कारण कार्य करने में असमर्थ हैं, के त्याग-पत्र के साथ स्पष्ट प्रतिवेदन देने को कहा गया। न्यास समिति के सदस्य श्री शिवपुजन तिवारी, अध्यक्ष का पत्र “**प्राप्त कर्त्ता का मृत्यु हो गया है वापस किया जा रहा है**” की टिप्पणी के साथ वापस आ गया। महदह ग्राम पंचायत के मुखिया का प्रमाण-पत्र पर्षद को प्राप्त है। इसमें न्यास समिति के सदस्य राजा पासवान, शिवपुजन तिवारी, बलिराज पाल, प्रद्युम्न लाल को मृत बताया गया है। श्री वैकटेश्वर प्रसाद सिंह ने त्याग-पत्र दे दिया है। न्यास के अधिकांश सदस्यों की मृत्यु के कारण कुछ सदस्यों के त्याग-पत्र देने के कारण, न्यास समिति के पुर्नगठन हेतु न्यास की बैठक सं० 45, दिनांक 07/09/2014 में कुल 9 सदस्यों की सुची न्यास समिति के अनुमोदन हेतु प्रस्तावित है।

अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा-32 के अन्तर्गत धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो धार्मिक न्यास की उप विधि सं० 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए **श्री ठाकुरजी रामजानकी मंदिर, महदह, बक्सर** के सुचारु प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक विकास के लिए नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति का पुर्नगठन किया जाता है।

योजना

1. अधिनियम की धारा-32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम “**श्री ठाकुरजी रामजानकी मंदिर न्यास योजना, महदह, बक्सर**” होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम “**श्री ठाकुरजी रामजानकी मंदिर न्यास समिति, महदह, बक्सर**” जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्तव्य न्यास की संपत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा ।

3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा ।

4. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा ।

5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी नियमों का पालने करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय-व्यय की विवरणी, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्यवृत्त आदि सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी ।

6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे । न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलाई जायेगी और बैठक की कार्यवृत्त पर्षद को प्रेषित की जायेगी ।

7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के अनुमोदन के लिए भेजेगी ।

8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि "यदि कोई हो तो", उसकी वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी ।

9. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा ।

10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाये जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी ।

11. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो, उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी ।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों को न्यास समिति पुनर्गठित की जाती है:-

(1) श्री मोनिका सिंह	—	अध्यक्ष
(2) श्री विकास सिंह	—	सचिव
(3) श्री धनंजय मिश्रा	—	कोषाध्यक्ष
(4) श्री कमला पासवान	—	सदस्य
(5) श्री मलाई कुशवाहा	—	"
(6) श्री अलख सिंह	—	"
(7) श्री बीरेन्द्र पाण्डेय	—	"
(8) श्री कमला सिंह	—	"
(9) श्री हरिश्चन्द्र केशरी	—	"

उपरोक्त सभी का पता— ग्राम+पो0+थाना— महदह, जिला— बक्सर।

12. उपरोक्त वर्णित न्यास समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले 05 वर्ष तक लागू रहेगी, लेकिन एक वर्ष के बाद न्यास समिति के कार्यों की समीक्षा की जायेगी और कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर न्यास समिति के अवधि विस्तार पर यथोचित निर्णय लिया जा सकेगा ।

विश्वासभाजन,
किशोर कुणाल,
अध्यक्ष ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 351-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>